

(ड) क्रम सं. 41 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“औद्योगिक भू-खण्ड या ऐसे भू-खण्ड जो वित्तीय-व्यापारकी अव-संरचनाओं के विकास के लिए हों तथा (क) किसी औद्योगिक इकाई या (ख) औद्योगिक या वित्तीय व्यापारिक क्षेत्र के किसी डेवलपर को, तथा राज्य सरकार औद्योगिक विकास निगम / प्रतिष्ठान या ऐसे किसी निकाय द्वारा दीर्घ कालीन अवधि (तीन वर्ष या इससे अधिक) के लिए पट्टे पर दिये गए हों जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, का स्वामित्व 50% या इससे अधिक हों, तो ऐसी सेवा के बारे में भुगतान किए जाने वाली अग्रिम (upfront) राशि, (जिसे प्रीमियम, सलामी, लागत, विकास खर्च या ऑय किसी भी नाम से जाना जाता हो)”

(ii) पैराग्राफ 2 में, उप-वाक्य (यच) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“(यच) “सरकारी प्राधिकरण” से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय से है जिसका गठन,-

(i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या

(ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो, और जिसका काम संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अंतर्गत नगर निगम को या संविधान के अनुच्छेद 243 छ के अंतर्गत किसी पंचायत को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है।

(यचक) “सरकारी निकाय” से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय (जिसमें सोसाइटी, ट्रस्ट, निगम भी आते हैं) से है जिसका गठन,—

(i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या

(ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो, और जिसका काम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है।”

[फा. सं. 354/173/2017—टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं० 12/ 2017- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, सा० का० नि० 691 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं० 30/2017-केन्द्रीय कर(दर), दिनांक 29 सितंबर, 2017, सा० का० नि० 1211 (अ) 29 सितंबर 2017 के तहत संशोधन किया गया था।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

### No. 32/2017- Central Tax (Rate)

**G.S.R. 1274(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

(i) in the Table,—

- a. in serial number 5, in column (3), for the words “governmental authority” the words “Central Government, State Government, Union territory, local authority or Governmental Authority” shall be substituted;
- b. after serial number 9B and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely:—

| (1) | (2)        | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (4) | (5)   |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| “9C | Chapter 99 | Supply of service by a Government Entity to Central Government, State Government, Union territory, local authority or any person specified by Central Government, State Government, Union territory or local authority against consideration received from Central Government, State Government, Union territory or local authority, in the form of grants. | Nil | Nil”; |

- c. after serial number 21 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely:—

| (1)  | (2)                                | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (4) | (5)   |
|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| “21A | Heading 9965<br>or<br>Heading 9967 | Services provided by a goods transport agency to an unregistered person, including an unregistered casual taxable person, other than the following recipients, namely: -<br>(a) any factory registered under or governed by the Factories Act, 1948(63 of 1948); or<br>(b) any Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or under any other law for the time being in force in any part of India; or<br>(c) any Co-operative Society established by or under any law for the time being in force; or<br>(d) any body corporate established, by or under any law for the time being in force; or<br>(e) any partnership firm whether registered or not under any law including association of persons;<br>(f) any casual taxable person registered under the Central Goods and Services Tax Act or the Integrated Goods and Services Tax Act or the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act. | Nil | Nil”; |

- d. after serial number 23 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely:—

| (1)  | (2)          | (3)                                                                   | (4) | (5)   |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| “23A | Heading 9967 | Service by way of access to a road or a bridge on payment of annuity. | Nil | Nil”; |

- e. in serial number 41, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted namely:—

“Upfront amount (called as premium, salami, cost, price, development charges or by any other name) payable in respect of service by way of granting of long term lease of thirty years, or more) of industrial plots or plots for development of infrastructure for financial business, provided by the State Government Industrial Development Corporations or Undertakings or by any other entity having 50 per cent. or more ownership of Central Government, State Government, Union territory to the industrial units or the developers in any industrial or financial business area.”;

- (ii) in paragraph 2, for clause (zf), the following shall be substituted, namely:—

“(zf) “Governmental Authority” means an authority or a board or any other body,—

- (i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or
- (ii) established by any Government,

with 90per cent. or more participation by way of equity or control, to carry out any function entrusted to a Municipality under article 243 W of the Constitution or to a Panchayat under article 243 G of the Constitution.

(zfa) “Government Entity” means an authority or a board or any other body including a society, trust, corporation,

- (i) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or
- (ii) established by any Government,

with 90per cent. or more participation by way of equity or control, to carry out a function entrusted by the Central Government, State Government, Union Territory or a local authority.”.

[F. No. 354/173/2017 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 12/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, *vide* number G.S.R. 691 (E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017 and was last amended by notification No.30/2017-Central Tax (Rate) dated the 29<sup>th</sup> September, 2017 *vide* number G.S.R. 1211(E). dated the 29<sup>th</sup> September, 2017.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2017

### सं. 33/2017- केन्द्रीय कर (दर)

**सा.का.नि. 1275(अ).—**केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केंद्र सरकार, जी.एस.टी. परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 13/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा0का0नि0 692(अ), दिनांक, 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा :—

(iii) सारणी में क्रम सं. 9 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा,—

|     |                                                                          |                                                        |                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| “10 | भारतीय रिजर्व बैंक की ओवरसीइंग कमेटी के सदस्यों द्वारा सेवाओं की आपूर्ति | भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित ओवरसीइंग कमेटी के सदस्य | भारतीय रिजर्व बैंक।” |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|

[फा. सं. 354/173/2017 —टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 13/ 2017- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, सा.का.नि. 692(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 22/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 22 अगस्त, 2017, सा.का.नि. 1047 (अ) दिनांक 22 अगस्त, 2017 के तहत संशोधन किया गया था।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

### No. 33/2017-Central Tax (Rate)

**G.S.R. 1275(E).—**In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government on the recommendations of the Council hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the